

## संदेश आते हैं लिरिक्स

संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,  
जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है ।  
के घर कब आओगे के घर कब आओगे,  
लिखो कब आओगे के  
तुम बिन ये घर सूना सूना है ।।

संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,  
जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है ।  
के घर कब आओगे के घर कब आओगे,  
लिखो कब आओगे के  
तुम बिन ये घर सूना सूना है ।।

किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने,  
हमें खत लिखा है ये हमसे पूछा है ।  
किसी की साँसों ने किसी की धड़कन ने,  
किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने ।।

किसी के कजरे ने किसी के गजरे ने,  
महकती सुबहों ने मचलती शामों ने ।  
अकेली रातों में अधूरी बातों ने,  
तरसती बाहों ने और  
पूछा है तरसी निगाहों ने ।।

के घर कब आओगे के,  
घर कब आओगे ।  
लिखो कब आओगे,  
के तुम बिन ये दिल सूना सूना है ।।

संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,  
जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है ।  
के घर कब आओगे के घर कब आओगे,

लिखो कब आओगे के  
तुम बिन ये घर सूना सूना है ।।

मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने,  
हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है ।  
हमारे गाँवों ने आम की छांवों ने,  
पुराने पीपल ने बरसते बादल ने ।।

खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने,  
बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने ।  
लचकते झूलों ने दहकते फूलों ने,  
चटकती कलियों ने और  
पूछा है गाँव की गलियों ने ।।

के घर कब आओगे के,  
घर कब आओगे ।  
लिखो कब आओगे,  
के तुम बिन गाँव सूना सूना है ।।

संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,  
जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है ।  
के घर कब आओगे के घर कब आओगे,  
लिखो कब आओगे के  
तुम बिन ये घर सूना सूना है ।।

कभी एक ममता की प्यार की गंगा की,  
जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है ।  
मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के,  
वो साया आंचल का वो टीका काजल का ।।

वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में,  
वो चाहत आँखों में वो चिंता बातों में ।  
बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से,  
करे वो देवी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ ।।

के घर कब आओगे,  
के घर कब आओगे ।  
लिखो कब आओगे,  
के तुम बिन आँगन सूना सूना है ।।

संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,  
जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है ।  
के घर कब आओगे के घर कब आओगे,  
लिखो कब आओगे के  
तुम बिन ये घर सूना सूना है ।।

ऐ गुजरने वाली हवा बता,  
मेरा इतना काम करेगी क्या ।  
मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे,  
मेरे गाँव में है जो वो गली ।।

जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा,  
उसे मेरे प्यार का जाम दे ।  
उसे मेरे प्यार का जाम दे ।।

वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा  
मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ,  
मेरी माँ के पैरों को छू के तू  
उसे उसके बेटे का नाम दे ।  
ऐ गुजरने वाली हवा ज़रा मेरे दोस्तों,  
मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा पयाम दे,  
उन्हें जा के तू ये पयाम दे ।।

मैं वापस आऊँगा मैं वापस आऊँगा,  
घर अपने गाँव में उसी की छांव में ।  
कि माँ के आँचल से गाँव की पीपल से,  
किसी के काजल से किया  
जो वादा था वो निभाऊँगा ।।

[AllBhajanLyrics.com](http://AllBhajanLyrics.com) पर visit करें।

मैं एक दिन आऊंगा मैं एक दिन आऊंगा  
मैं एक दिन आऊंगा मैं एक दिन आऊंगा ।।

<https://allbhajanlyrics.com/sandese-aate-hai-lyrics/>

[तेरी मिट्टी में मिल जावां लिरिक्स](#)

[Filmy Deshbhakti Songs Lyrics](#)